



Jamna Auto Industries Ltd.

Date: May 13, 2026

To,
BSE Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400001 Maharashtra

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051, Maharashtra

BSE Code: 520051

NSE Code: JAMNAAUTO

Subject– Newspaper Advertisement-Notice with respect to opening of Special Window for re-lodgment of transfer requests of physical shares.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PoD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, we are enclosing herewith, the copy of the newspaper advertisement with respect to Notice to shareholders for opening of Special Window for re-lodgment of transfer requests of Physical Shares published in the Financial Express (Delhi & Chandigarh edition) and Jansatta (Delhi & Chandigarh edition) dated May 13, 2026.

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera
Company Secretary & Head-Legal
Encl: As above

Corp Off: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes, Sector-27D, NH2, Faridabad-121003(HR.) Tel. 0129-4006885

Regd Off: Jai Springs Road, Yamuna Nagar (Haryana)-135001, India

Website: www.jaispring.com | CIN: L35911HR1965PLC004485 | Email Id: investor.relations@jaispring.com

YAMUNA NAGAR | MALANPUR | CHENNAI | JAMSHEDPUR | PANTNAGAR | HOSUR | PUNE

Public Notice

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of (name of Company) Thirumali Chemicals Ltd having its Registered Office at - Plot No 101/102, Thirumalai House, Road No 39 Scheme No 6, Sion Matunga Estate, Sion East, Mumbai, Maharashtra, 400022.

Registered in the name of the Following Shareholder/s have been lost by them.

Sr. No.	Name of the Shareholder/s	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Number/s	Total Number of Shares & Face Value
1.	Jaysukhlal Prabhshanker Daftry (Deceased)	J000023	1057	757801 - 767800	10000 Equity Shares in 1/- Paid Up

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place: Mumbai
Date: 11.05.2026
Kamesh Jaysukhlal Daftry
Name of the son & applicant & legal heir.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

Regd. Office: D-3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, India, Pincode-209311
CIN: L15202UP1992PLC014593, Phone No.: 0512-4003999, Fax No.: 0512-2234244
Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER / YEAR ENDED ON MARCH 2026

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-26 (Audited)	31-Dec-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-26 (Audited)	31-Mar-25 (Audited)
1	Total Income from Operations	43.71	18.80	204.40	392.29	647.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(10.68)	(73.74)	(237.88)	(496.82)	(974.09)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax After Exceptional Items	(10.68)	(73.74)	(237.88)	(496.82)	(974.09)
4	Net Profit / (Loss) for the period (After tax and Exceptional Items)	(10.68)	(73.74)	(251.62)	(496.82)	(993.15)
5	Total Comprehensive Income for the period comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(10.68)	(73.74)	(248.41)	(496.82)	(987.80)
6	Equity Share Capital	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) and shown in the balance sheet of the previous year	-	-	-	(5,512.68)	(5,015.86)
8	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continuing operations)					
	Basic	(0.36)	(1.01)	(1.13)	(3.62)	(4.86)
	Diluted	(0.36)	(1.01)	(1.13)	(3.62)	(4.86)
9	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for discontinued operations)					
	Basic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diluted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continuing and discontinued operations)					
	Basic	(0.05)	(0.36)	(1.23)	(2.43)	(4.86)
	Diluted	(0.05)	(0.36)	(1.23)	(2.43)	(4.86)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For Tasty Dairy Specialities Ltd.

(CA Anish Agarwal)

Resolution Professional

IBBI/IPA-001/IP-P-01497/2018 - 2019/12256

Place : Kanpur
Date: 13.05.2026

TAMILNADU MAGNESITE LTD

(A GOVT OF TAMIL NADU UNDERTAKING)

5/53, OMALUR MAIN ROAD, JAGIR AMMAPALAYAM POST, SALEM-636 302, TAMIL NADU

Mobile: 9442700724 E-mail: tanmagmarketing2020@gmail.com Website: www.tanmag.org

NOTICE INVITING e-TENDER cum AUCTION

Sr. No.	Description	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF DUNITE (HARD, SOFT, COATED & RESIDUAL) AVAILABLE AT DUNITE STOCKYARD, RKD & SKD PREMISES.	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF DEAD BURNT MAGNESITE (DBM) OF VARIOUS GRADES AVAILABLE AT RKD PREMISES.	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF LIGHTLY CALCINED MAGNESITE (LCM) POWDER AVAILABLE AT SHAFT KILN DIVISION (SKD).	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF RAW MAGNESITE (RM), RAW MAGNESITE SLATY (RMS), RMD, SCD AND BPPR AVAILABLE AT MINES AND RKD PREMISES.
01	Tender No & Date	Rc.No: 842 / MKTG / PROMOTION OF DUNITE THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027. Dated: 11.05.2026.	Rc.No: 843 / MKTG / PROMOTION OF DEAD BURNT MAGNESITE (DBM) OF VARIOUS GRADES THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027. Dated: 11.05.2026.	Rc.No: 844 / MKTG / PROMOTION OF LIGHTLY CALCINED MAGNESITE (LCM) POWDER THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027. Dated: 11.05.2026.	Rc.No: 845 / MKTG / PROMOTION OF RAW MAGNESITE (RM), RAW MAGNESITE SLATY (RMS), RMD, SCD AND BPPR THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027. Dated: 12.05.2026.
02	Tender ID	2026, TNMAG_676609_1	2026, TNMAG_676625_1	2026, TNMAG_676643_1	2026, TNMAG_676733_1
03	EMD amount	Rs.9,99,294/-	Rs.7,92,988/-	Rs.3,82,500/-	Rs.4,41,032/-
04	Bid submission end date	26.05.2026 upto 06.00 pm	26.05.2026 upto 06.00 pm	26.05.2026 upto 06.00 pm	26.05.2026 upto 06.00 pm
06	Technical bid opening date	27.05.2026 @ 10.30 am	27.05.2026 @ 12.30 am	27.05.2026 @ 02.30 pm	27.05.2026 @ 03.00 pm

Note: For further details please visit Tamil Nadu e-tendering portal: <https://intenders.gov.in> and TANMAG website: www.tanmag.org

Manager (Marketing)

DIPR/1856/Tender/2026

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana
Tel. 0129-4006885; Website: www.jaispring.com
Email Id: investor.relations@jaispring.com

Opening of Special Window for Re-Lodgement of Transfer Request of Physical Shares

Notice is hereby given that the Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, had provided a special window from July 7, 2025 to January 8, 2026 for re-lodgment of transfer deeds relating to physical shares which were earlier lodged by investors for transfer prior to April 01, 2019 but were rejected, returned, or left unattended due to deficiencies. SEBI vide Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PoD/1/3750/2026 dated January 30, 2026 has extended this special window for a further period of one (1) year, from February 05, 2026 to February 04, 2027. Eligible investors may re-lodge such transfer deeds with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), along with the requisite documents, on or before February 04, 2027. Pursuant to the said circular, securities re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized form after completion of the prescribed transfer-cum-demat process.

The investors may also approach Company's RTA for any clarification on this subject at Skyline Financial Services Pvt. Ltd., D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Ph:011- 40450193-197, Email: grievances@skylinert.com; parveen@skylinert.com.

Yours faithfully

For Jamna Auto Industries Ltd.

Sd/-

Praveen Lakhera

Company Secretary & Head Legal

Place: Faridabad

Date: May 12, 2026

A Unit of
Kothari Group
ALBERT DAVID LIMITED
Regd. Office : 'D' Block, 3rd Floor, Gillander House, 8, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
(Corporate Identity No. : L51109WB1938PLC009490)
Tel : 033-2262-8436/8456/8492, 2230-2330, Fax : 033-2262-8439
Email : albertdavid@adlindia.in, Website : www.albertdavidindia.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2026

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	8586.34	7489.33	33359.81	34576.80
2	Net Profit/(+)/Loss(-) for the period from operations (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2523.38)	(1180.87)	52.49	2522.77
3	Net Profit/(+)/Loss(-) for the period from operations before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2523.38)	(1180.87)	52.49	2522.77
4	Net Profit/(+)/Loss(-) for the period from operations (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(2143.44)	(1032.79)	(149.47)	1720.08
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1906.54)	(1150.56)	190.68	1606.58
6	Equity Share Capital	570.72	570.72	570.72	570.72
7	Other Equity	-	-	38582.91	38677.62
8	Earning Per Share (of Rs.10/- each)				
	Basic (Rs.) :	(37.56)	(18.10)	(2.62)	30.14
	Diluted (Rs.) :	(37.56)	(18.10)	(2.62)	30.14

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results and notes thereto along with the Statutory Auditor's Report thereon are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) and the Company's website (www.albertdavidindia.com).
- The above Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th May, 2026. The Statutory Auditors have issued an unmodified audit opinion on these financial results.
- The Annual Financial Results have been audited by the Statutory Auditors as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The figures for the quarter ended 31st March, 2026 and 31st March, 2025 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published figures upto the end of third quarter.
- The Board of Directors recommended dividend of Rs.5/- per equity share of Rs.10/- each for the financial year ended 31st March, 2026.
- The Company is engaged in the manufacturing of pharmaceutical products and has only one reportable segment in accordance with Ind AS-108 "Operating Segments".
- Figures for the previous periods have been regrouped to conform to the figures of the current periods as and when required in limited context of format of financial results and disclosures thereon specified by SEBI.



For Albert David Limited
(A. K. Kothari)
Executive Chairman
(DIN : 00051900)

Place : Kolkata
Date : 12th May, 2026

Kisetsu Saison Finance (India) Private Limited

CIN: U65999KA2018FTC113783
Registered Office: IndiQube Lexington Tower, First Floor,
Tavarekere Main Road, Tavarekere, S.G. Palya,
Bengaluru, Karnataka - 560 029
E-mail: cs@creditsaison-in.com | Website: www.creditsaison.in

Extract of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	31.03.2026 Unaudited (Refer Note 12)	31.12.2025 Unaudited	31.03.2025 Unaudited (Refer Note 12)	31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited
Total Revenue from Operations	89,825.98	84,419.03	73,586.45	3,34,839.98	2,69,864.18
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	34,197.47	16,684.27	(7,508.44)	45,054.03	14,522.79
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	34,197.47	16,684.27	(7,508.44)	45,054.03	14,522.79
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	25,567.18	12,429.01	(5,665.61)	33,556.59	10,733.70
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	31,302.97	10,974.65	(6,554.97)	38,274.72	9,770.87
Paid up Equity Share Capital	1,88,370.48	1,74,326.11	1,70,820.63	1,88,370.48	1,70,820.63
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,99,021.87	2,15,361.06	1,94,597.08	2,99,021.87	1,94,597.08
Securities Premium Account	2,17,129.90	1,65,064.82	1,53,190.73	2,17,129.90	1,53,190.73
Net worth	4,87,392.35	3,89,687.17	3,65,417.71	4,87,392.35	3,65,417.71
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	18,64,733.98	16,55,799.17	15,73,029.95	18,64,733.98	15,73,029.95
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-
Debt Equity Ratio	3.83	4.25	4.30	3.83	4.30
Earnings Per Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)					
Basic (₹)	1.44	0.71	(0.33)	1.94	0.63
Diluted (₹)	1.41	0.70	(0.33)	1.89	0.61
Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-
Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Notes:

- These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in accordance with the requirement of regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.
- The above financial results for the quarter and year ended March 31, 2026 have been reviewed and recommended by the Audit Committee on May 11, 2026 and approved by the Board of Directors at their meeting held on May 12, 2026. The Joint Statutory Auditor of the Company has carried out an audit of the aforesaid results and has issued an unmodified report.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the website of the National Stock Exchange (NSE) of India at www.nseindia.com and on the Company's website at www.creditsaison.in.
- For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed at www.nseindia.com and the Company's website at www.creditsaison.in.

By order of the Board
For Kisetsu Saison Finance (India) Private Limited
Sd/-
Presha Paragash
Wholtime Director & Chief Executive Officer
DIN: 06983175

Date : May 12, 2026

Place: Bengaluru

PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: U70102TG2006PLC049949

Regd Office: KNR House, 4th Floor, Plot No.114, Phase-1, Kavuri Hills, Hyderabad- 500033. Ph: +91 40 40268761/62. Fax: +91 40 40268760

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(RS IN LAKHS)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31-03-2026 Un-Audited	Quarter Ended 31-03-2025 Un-Audited	Quarter Ended 31-12-2025 Un-Audited	Year Ended 31-03-2026 Un-Audited	Year Ended 31-03-2025 Un-Audited
		1.	Total income from operations	3,877.61	837.77	740.70
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	3,144.68	(400.32)	(82.37)	3,297.34	(1,047.85)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, After Exceptional Items)	3,144.68	(400.32)	(82.37)	3,297.34	(1,047.85)
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional Items)	2,806.59	(472.88)	(123.12)	2,831.42	(1,802.42)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,806.59	(472.88)	(123.12)	2,831.42	(1,802.42)
6.	Paid up Equity Share Capital	2,382.38	2,382.38	2,382.38	2,382.38	2,382.38
7.	Debt Equity Ratio	0.23	0.55	0.54	0.23	0.55
8.	Earnings Per Share					
	1. Basic: (Rs.)	11.78*	-1.98*	-0.52*	11.88	-7.57
	2. Diluted: (Rs.)	11.78*	-1.98*	-0.52*	11.88	-7.57
9.	Debt Service Coverage Ratio	288.00	527.20	521.20	288.00	527.20
10.	Debt Service Coverage Ratio #	0.24	0.00	1.72	0.64	0.07
11.	Interest Service Coverage Ratio #	16.17	(0.54)	0.61	4.91	0.45

* Not Annualized

The Debt Service Coverage ratio and Interest Service Coverage ratio is below one due to IND-AS impacts and early redemption of Debentures.

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Year ended March, 2026 filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of Listing Regulations. The full format of the Year ended March 2026 Financial Results are available on the Stock Exchange website namely, BSE Limited (www.bseindia.com).
- The above financial results were reviewed and approved and taken on record by the Board in their meeting held on 11th May 2026
- The figures have been regrouped and/or rearranged wherever considered necessary.

For Patel KNR Heavy Infrastructures Ltd

Sd/-

(K Narsimha Reddy)

Director

DIN: 00382412

Place : Hyderabad

Date : 11-05-2026

Public Notice

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate (name of Company) Thirumalai Chemicals Ltd having its Registered Office at - Plot No 101/102, Thirumalai House, Road No 39 Scheme No 6, Sion Matunga Estate, Sion East, Mumbai, Maharashtra, 400022.

Registered in the name of the Following Shareholder's have been lost by them.

Sr. No.	Name of the Shareholder's	Folio No.	Certificate No.	Distinctive Number/s	Total Number of Shares & Face Value
1.	Jaysukhlal Prabhshanker Daftary (Deceased)	J000023	1057	757801 - 767800	10000 Equity Shares in 1/- Paid Up

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.

Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place: Mumbai
Name of the son & applicant & legal heir.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting in any manner whatsoever.

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

Regd. Office: D-3, UPSIDC, Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh, India, Pincode-209311
CIN: L15202UP1992PL0014593, Phone No.: 0512-4003999, Fax No.: 0512-2234244
Email: info@tastydairy.com, Website: www.tastydairy.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER / YEAR ENDED ON MARCH 2026

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended		
		31-Mar-26 (Audited)	31-Dec-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)	31-Mar-26 (Audited)	31-Mar-25 (Audited)
1	Total Income from Operations	43.71	18.80	204.40	392.29	647.55
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(10.68)	(73.74)	(237.88)	(496.82)	(974.09)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	(10.68)	(73.74)	(237.88)	(496.82)	(974.09)
4	Net Profit / (Loss) for the period (After tax and Exceptional and/or Extraordinary items)	(10.68)	(73.74)	(251.62)	(496.82)	(993.15)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(10.68)	(73.74)	(248.41)	(496.82)	(987.80)
6	Equity Share Capital	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) and shown in the balance sheet of the previous year	-	-	-	(5,512.68)	(5,015.86)
8	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continuing operations)	(0.36)	(1.01)	(1.13)	(3.62)	(4.86)
9	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for discontinued operations)	(0.36)	(1.01)	(1.13)	(3.62)	(4.86)
10	Earning per share (Of Rs.10/-) each (for continuing and discontinued operations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Basic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diluted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Basic	(0.05)	(0.36)	(1.23)	(2.43)	(4.86)
	Diluted	(0.05)	(0.36)	(1.23)	(2.43)	(4.86)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For Tasty Dairy Specialities Ltd.
Sd/-
(CA Anish Agarwal)
Resolution Officer
IBBI/IPA-001/IP-P-01497/2018 - 2019/12256

Place : Kanpur
Date: 13.05.2026

TAMILNADU MAGNESITE LTD

(A GOVT OF TAMIL NADU UNDERTAKING)

5/53, OMALUR MAIN ROAD, JAGIR AMMAPALAYAM POST, SALEM-636 302, TAMIL NADU

Mobile: 9442700724 E-mail: tanmagmarketing2020@gmail.com Website: www.tanmag.org

NOTICE INVITING e-TENDER cum AUCTION

Sr. No.	Description	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF DUNITE (HARD, SOFT, COATED & RESIDUAL) AVAILABLE AT DUNITE STOCKYARD, RKD & SKD PREMISES.	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF DEAD BURNT MAGNESITE (DBM) OF VARIOUS GRADES AVAILABLE AT RKD PREMISES.	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF LIGHTLY CALCINED MAGNESITE (LCM) POWDER AVAILABLE AT SHAFT KILN DIVISION (SKD).	e-TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF RAW MAGNESITE (RM), RAW MAGNESITE SLATY (RMS), RMD, SCD AND BPPR AVAILABLE AT MINES AND RKD PREMISES.
01	Tender No & Date	Rc.No: 842 / MKTG / PROMOTION OF DUNITE THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027, Dated: 11.05.2026.	Rc.No: 843 / MKTG / PROMOTION OF DEAD BURNT MAGNESITE (DBM) OF VARIOUS GRADES THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027, Dated: 11.05.2026.	Rc.No: 844 / MKTG / PROMOTION OF LIGHTLY CALCINED MAGNESITE (LCM) POWDER THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027, Dated: 11.05.2026.	Rc.No: 845 / MKTG / PROMOTION OF RAW MAGNESITE (RM), RAW MAGNESITE SLATY (RMS), RMD, SCD AND BPPR THROUGH e-TENDER CUM AUCTION / 2026-2027, Dated: 12.05.2026.
02	Tender ID	2026, TNMAG_676609_1	2026, TNMAG_676625_1	2026, TNMAG_676643_1	2026, TNMAG_676733_1
03	EMD amount	Rs.9,99,294/-	Rs.7,92,988/-	Rs.3,82,500/-	Rs.4,41,032/-
04	Bid submission end date	26.05.2026 upto 06.00 pm	26.05.2026 upto 06.00 pm	26.05.2026 upto 06.00 pm	26.05.2026 upto 06.00 pm
06	Technical bid opening date	27.05.2026 @ 10.30 am	27.05.2026 @ 12.30 pm	27.05.2026 @ 02.30 pm	27.05.2026 @ 03.30 pm

Note: For further details please visit Tamil Nadu e-tendering portal: <https://tntenders.gov.in> and TANMAG website: www.tanmag.org

DIPR/1856/Tender/2026

Manager (Marketing)

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana
Tel. 0129-4006885; Website: www.jaispring.com
Email ID: investor.relations@jaispring.com

Opening of Special Window for Re-Lodgement of Transfer Request of Physical Shares

Notice is hereby given that the Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025, had provided a special window from July 7, 2025 to January 6, 2026 for re-lodgment of transfer deeds relating to physical shares which were earlier lodged by investors for transfer prior to April 01, 2019 but were rejected, returned, or left unattended due to deficiencies. SEBI vide Circular No. HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-PoD/1/3750/2026 dated January 30, 2026 has extended this special window for a further period of one (1) year, from February 05, 2026 to February 04, 2027. Eligible investors may re- lodge such transfer deeds with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), along with the requisite documents, on or before February 04, 2027. Pursuant to the said circular, securities re-lodged for transfer shall be issued only in dematerialized form after completion of the prescribed transfer-cum-demat process.

The investors may also approach Company's RTA for any clarification on this subject at Skyline Financial Services Pvt. Ltd., D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Ph:011- 40450193-197, Email: grievances@skylinert.com; parveen@skylinert.com.

Yours faithfully
For Jamna Auto Industries Ltd.
Sd/-
Praveen Lakhera
Company Secretary & Head Legal

Place: Faridabad
Date: May 12, 2026

PRABHANS INDUSTRIES LIMITED

CIN : L70200TG1993PLC016389
Regd. Office: Plot No.270E/A, MCH No.985, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana-500033 | Corp Office: House No. 248, Karta Ram Gali Ghass Mandi, Chauri Bazar Ludhiana 141008

Phone No. +91-40-23544558 | Fax: +91-40-23544558
Email: satnam94151@gmail.com, Website: www.prabhansindia.com

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS OF PRABHANS INDUSTRIES LIMITED FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2026

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	2,842.97	2,807.11	10,107.82	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	44.25	97.56	221.59	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.25	97.56	221.59	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	33.13	52.13	163.76	
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	33.13	52.13	163.76	
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs 10- each)	624.82	624.82	624.82	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year	-	-	-	
8.	Earnings Per Share (Of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	0.53	0.83	2.62	
	2. Diluted:	0.53	0.83	2.62	

Notes:
1. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th May 2026. The full format of the quarter and year ended financial results are available on the Stock Exchange website (<http://www.bseindia.com/>) and the company's website (www.prabhansindia.com/).

2. The above results for the quarter and year ended on 31st March 2026 have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (Ind AS 34), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

3. The Company has a single reportable segment for the purpose of Ind AS-108.



For and on behalf of
PRABHANS INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Satnam Singh
Managing Director & CFO
DIN: 09526002

Date: 12-05-2026
Place: Ludhiana

ABANS ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74120MH1985PLC035243

Regd. Office: 36/37/38A, 3rd Floor, 227, Nariman Bhavan, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Tel No.: 022 - 6179 0000, Fax: 022 - 6179 0010

Email: compliance@abansenterprises.com | Website: www.abansenterprises.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	6,51,039.84	3,45,652.28	1,97,388.14	13,81,282.32
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	627.28	(1,498.08)	729.21	841.11
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	627.28	(1,498.08)	729.21	841.11
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(794.83)	236.45	427.52	396.40
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(665.83)	563.27	417.16	1024.62
6.	Equity Share Capital	1,394.98	1,394.98	1,394.98	1,394.98
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	20,242.55	19,217.93
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	(1.14)	0.34	0.61	0.57
	2. Diluted:	(1.14)	0.34	0.61	0.57

Note:
a) The above results for the quarter and year ended March 31, 2026 have been reviewed and approved at the Audit Committee Meeting and Board Meeting held on May 12, 2026.

b) Additional information on standalone financial results is as follows:

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)
1.	Total Income from operations (net)	1,876.39	950.21	8,305.97	18,843.74
2.	Profit before tax	144.55	(408.59)	325.60	(192.16)
3.	Profit after tax	103.78	(317.19)	242.95	(158.16)
4.	Total Comprehensive Income for the period	101.92	(317.19)	242.95	(160.02)

c) The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results (standalone and consolidated) filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the financial results are available on the stock exchanges website i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and MSE Limited (www.mseil.in) and on Company's website (www.abansenterprises.com).

d) The Complete results can also be accessed by scanning:



For Abans Enterprises Limited
Sd/-
Jinesh Savla
Whole - Time Director & CEO
DIN : 11286253

Place: Mumbai
Date: May 12, 2026

PATEL KNR HEAVY INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: U70102TG2006PLC049949

Regd Office: KNR House, 4th Floor, Plot No.114, Phase-1, Kavuri Hills, Hyderabad- 500033. Ph: +91 40 40268761/62, Fax: +91 40 40268760

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31-03-2026 Un-Audited	Quarter Ended 31-03-2025 Un-Audited	Quarter Ended 31-12-2025 Un-Audited	Year Ended 31-03-2026 Un-Audited	Year Ended 31-03-2025 Un-Audited
		1.	Total income from operations	3,877.61	837.77	740.70
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	3,144.68	(400.32)	(82.37)	3,297.34	(1,047.85)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, After Exceptional items)	3,144.68	(400.32)	(82.37)	3,297.34	(1,047.85)
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional items)	2,806.59	(472.88)	(123.12)	2,831.42	(1,802.42)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,806.59	(472.88)	(123.12)	2,831.42	(1,802.42)
6.	Paid up Equity Share Capital	2,382.38	2,382.38	2,382.38	2,382.38	2,382.38
7.	Debt Equity Ratio	0.23	0.55	0.54	0.23	0.55
8.	Earnings Per Share					
	1. Basic: (Rs.)	11.78*	-1.98*	-0.52*	11.88	-7.57
	2. Diluted: (Rs.)	11.78*	-1.98*	-0.52*	11.88	-7.57
9.	Debt Service Coverage Ratio	288.00	527.20	521.20	288.00	527.20
10.	Debt Service Coverage Ratio #	0.24	0.00	1.72	0.64	0.47
11.	Interest Service Coverage Ratio #	16.17	(0.54)	0.61	4.91	0.05

* Not Annualized

The Debt Service Coverage ratio and Interest Service Coverage ratio is below one due to IND-AS impacts and early redemption of Debentures.

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Year ended March 2026 filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of Listing Regulations. The full format of the Year ended March 2026 Financial Results are available on the Stock Exchange website namely, BSE Limited (www.bseindia.com).

2. The above financial results were reviewed and approved and taken on record by the Board in their meeting held on 11th May 2026

3. The figures have been regrouped and/or rearranged wherever considered necessary.

For Patel KNR Heavy Infrastructures Ltd
Sd/-
(K Narsimha Reddy)
Director
DIN: 00382412

Place : Hyderabad
Date : 11-05-2026



Kisetsu Saison Finance (India) Private Limited

CIN: U65999KA2018FTC113783
Registered Office: IndiQube Lexington Tower, First Floor, Tavarekere Main Road, Tavarekere, S.G. Palya, Bengaluru, Karnataka - 560 029

E-mail: cs@creditsaison.in | Website: www.creditsaison.in

Extract of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2026

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2026 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)	31.03.2026 (Audited)
Total Revenue from Operations	89,825.98	84,419.03	73,586.45	3,34,839.98
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	34,197.47	16,684.27	(7,508.44)	45,054.03
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	34,197.47	16,684.27	(7,508.44)	45,054.03
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25,567.18	12,429.01	(5,665.61)	33,556.59
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	31,302.97	10,974.65	(6,554.97)	38,274.72
Paid up Equity Share Capital	1,88,370.48	1,74,326.11	1,70,820.63	1,88,370.48

सूचना

- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 तथा धारा 79(1)(क) के अंतर्गत, 'किशनपुर - मोगा ट्रांसमिशन सिस्टम' के संयुक्त परिसरितियों हेतु उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2019-24 की ट्रांसमिशन टैरिफ की दृष्टि-अनु तथा वर्ष 2024-25 टैरिफ ब्लॉक हेतु ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण के लिए सीडीआरसी (Conduct of Business) Regulations, 1999 की परिणाम-86 एवं सीडीआरसी (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 के अंतर्गत अनुमोदन, तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (Conduct of Business) Regulations, 2023 के नियम 15(1)(क) एवं नियम 23 के साथ परिसरितियों हेतु विद्युत विनियामक आयोग (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014, 2019 एवं 2024 के अंतर्गत आवेदन किया गया है।
- उपरोक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के लागू/नियमित/नियमित हैं (क) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ज) खजुरा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ग) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (घ) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ङ) हरियाणा पावर परसेज इंटर (च) जम्मू एवं कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (झ) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ञ) बीएचएल एनएमएल पावर लिमिटेड (ड) बीएचएलएस राजनीय पावर लिमिटेड (डी) टाटा पावर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड (ई) वहीडिंग विद्युत विभाग (ए) उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ई) नॉर्थ स्टेट एल (एच) नई दिल्ली नगर परिषद (एच) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड।

क) 2019-24 ब्लॉक (राशि लाख रुपये में)

परिसरिति विवरण	31.03.2024 तक पूर्णता लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
संगुण परिसरिति	85159.01	अनुमोदित AFC	4484.23	4316.66	4269.72	4384.98	4389.97
दूधन-अप के आधार पर समायोजित AFC		4484.23	4316.66	4269.73	4384.98	4699.62	

ख) 2024-29 ब्लॉक (राशि लाख रुपये में)

परिसरिति विवरण	31.03.2029 तक पूर्णता लागत	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	
संगुण परिसरिति (मौजूद)	85113.64	तथा किंगम ग्राह्य AFC	4592.19	4551.99	4511.47	4462.57	4406.93
संगुण परिसरिति (नए उपकरण)		तथा किंगम ग्राह्य AFC	0.00	0.00	20.53	97.85	254.88

- इस सूचना एवं टैरिफ निर्धारण हेतु नगर आवेदन की प्रति आवेदक की वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.powergrid.in
- टैरिफ निर्धारण संबंधी आवेदन में दिए गए प्रस्तावों पर सुझाव अथवा आपत्तियाँ, यदि कोई हो, तो कोई भी व्यक्ति अथवा सामाजिक, प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, छठे, सातवीं एवं आठवीं मंजिल, टॉवर-बी, चर्च स्टैंड, नरीश्री नगर, नई दिल्ली - 110029 (या आयोग के कार्यालय के अन्य पते) को प्रेषित कर सकता है, तथा किसी भी अतिरिक्त कोर्पोरेट कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

स्थान: गुवागम
दिनांक: 06.05.2026

हस्ताक्षर/—
वरिष्ठ उपा महाप्रबंधक (सांख्यिक)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजी. कार्यालय: बी-9, कुश्वा इन्टरनेशनल एरिया, कटापौरा सारय, नई दिल्ली-110 016
कायालय: गान्धीनगर, प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुवागम-122001, (हरियाणा)
एक महारत्न पीएसयू

REMINDER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED APRIL 22, 2026 AND LETTER OF OFFER DATED APRIL 25, 2026 FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CROWN LEASING AND FINANCE LIMITED

(Corporate Identification Number: L65910DL1983PLC016991)
PURSUANT TO THE SUBSIDIARY MOA/SEBI/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016

Registered Office: H-1479, Chittaranjan Park, South Delhi, New Delhi - 110 019;
Corporate Office: AE-6, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata - 700064, West Bengal
Tel. No. +91-33-2359 2153; Email: crown.leasing@gmail.com

This Reminder Public Announcement ("Reminder PA") to Public Announcement dated April 22, 2026 published in The Financial Express, English Daily, All Editions and Jansatta, Hindi Daily, All Editions on April 23, 2026 and Letter of Offer dated April 25, 2026, is being issued by Mr. Arvind Nath (Acquirer) having residential address at AE-6, Salt Lake City, Tank 4, Sector 1, Bidhanagar, Kolkata - 700 064, one of the members of promoter and promoter group of Crown Leasing and Finance Limited ("CLFL", "Company"), for providing exit option to the Public Shareholders in accordance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2017/5 dated January 05, 2017 and SEBI Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2017/27 dated March 27, 2017 ("SEBI Circular") for the acquisition (hereinafter referred to as the "Exit Offer", "Offer") of 5,56,400 fully paid-up equity shares of Rs.10/- each ("The Equity Shares") from the public shareholders of the Company at a price of Rs.30/- ("The Offer Price") per Equity Share. This Reminder PA should be read in conjunction with the Public Announcement and Letter of Offer captioned terms used herein and not defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Public Announcement and Letter of Offer.

1. BACKGROUND OF THE EXIT OFFER
Crown Leasing and Finance Limited is a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 as a public limited company dated 22nd November, 1983 at ROC Delhi. The company obtained certificate for commencement of business 07th December, 1983. The CIN of the Company is L65910DL1983PLC016991. Presently, the Registered Office of the Company situated at H-1479, Chittaranjan Park, South Delhi, New Delhi - 110 019, India. The Corporate Office of the Company situated at AE-6, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata - 700064, West Bengal. The company has primarily been involved in leasing and hire purchase and provided on lease or hire purchase services of all industrial and office plant, equipment and machinery required for manufacturing, processing, transportation and trading businesses. The company also lend money for businesses, but not involved in any banking business. The company's operation has been virtually shut down for the past 30 years. As on the date of Reminder PA, The Authorized Share Capital of the Company is Rs.2,00,00,000/- (Rupees Two Crores Only) divided into 20,00,000 equity shares of Rs.10/- each of which is issued, Subscribed and Paid-up capital of the Company is Rs.1,96,50,000/- (Rupees One Crore Ninety-Six Lakhs Fifty Thousand Only) divided into 19,70,000 equity shares of Rs.10/- each fully paid and 30,000 equity shares of Rs.10/- each of which Rs.5/- each part. The Promoters and promoter group (including Acquirer) holds 14,34,540 Equity Shares representing 72.18% of Equity Capital. The balance 5,56,400 Equity Shares representing 27.82% of Equity Capital are held by the Public shareholders of the Company.

The company was come out with an IPO in June, 1996. The company's equity shares were listed at The Delhi Stock Exchange Association Limited (DSE) w.e.f. 06th August, 1996. The company's equity shares were also got listed at U.P. Stock Exchange Limited ("UPSE") w.e.f. March 25, 1992. The U.P. Stock Exchange Limited is ceased to be a functional stock exchange as the same has been de-recognised by SEBI vide its order no. WTM/RK/AMRD/49/2015 dated June 09, 2015 and all exclusive listed companies including Crown Leasing and Finance Limited listed at UPSE are being placed at Dissemination Board ("DB") of National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). The Delhi Stock Exchange Limited ("DSE") is also ceased to be a functional stock exchange as the same has been de-recognised by SEBI vide its order no. WTM/RK/SEBI/MRD/504/01/2017 dated January 25, 2017.

In terms of SEBI Circular, the exclusively listed companies appearing on the dissemination board of such exclusively listed companies on the notice of providing exit to its public shareholders and required to submit the "Plan of Action" by June 30, 2017 to the designated stock exchange (in present case NSE). The Company vide its letter dated March 27, 2026 informed NSE that, the Letter of Intent as prescribed by NSE for providing exit to its public shareholders was submitted on March 27, 2026. In terms of the SEBI Circular, the Acquirer has appointed Intelligent Money Managers Private Limited ("IMMLP", SEBI registered Category-1 Merchant Banker (SEBI Registration Number INM00012169) and empanelled as an expert valuer on the part of NSE as an "Independent Valuer" to determine the fair value of the Shares and to carry out the process of Exit Offer. The Acquirer now seeks to acquire 5,56,400 Equity Shares of face value of Rs.10/- each representing 27.82% of Equity Capital of the Company from the public shareholders of the Company. Subsequent to the completion of the process, the Company shall make an application to NSE for removal of its name from DB of NSE.

This Reminder PA is being issued in terms of NSE Checklist and published in "Financial Express" (All Editions) - being the English National Daily and "Jansatta" - Hindi - (All Editions) being the Regional Language newspaper of the region where the UPSE was located.

DETERMINATION AND JUSTIFICATION OF EXIT PRICE
Intelligent Money Managers Private Limited vide certificate dated April 13, 2026 ("Valuation Report") has issued a valuation report to determine the fair value of the Equity Shares of the Company. As per the Valuation Report, the fair value per equity share of Rs.10/- each of the Company works out to Rs.30/- per equity share. Based on the Valuation Report, Acquirer is making an offer to acquire the Equity Shares from the public shareholders at an Exit Price of Rs.30/- (Rupees Thirty Only) ("Exit Price") per Equity Share of face value of Rs.10/- each. The Exit Price has been determined based on the fair value which is arrived at by applying the Net Asset Value method and Profit Earning Capacity Value method. The Valuation Report is available for inspection at the Corporate Office of the Company during office hours from the date of the Public Announcement.

DETAILS OF THE ESCROW ACCOUNT AND THE AMOUNT DEPOSITED THEREIN
The total fund requirement for the Offer (assuming full acceptance) is Rs.1,66,93,800/- (Rupees One Crore Sixty-Six Lakhs Ninety-Three Thousand Eight Hundred Only). In accordance with the Exit Circular, the Promoter and Independent Valuer have entered an Escrow Agreement dated April 22, 2026 with State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 having its Central Office at Nariman Point, Mumbai and amongst other places and branch at SME Branch, Howrah West Bengal. The said Bank Guarantee shall be valid upto May 27, 2027 i.e. more than 1 (One) year from the date of closure of Exit Offer Period.

TIMETABLE FOR THE EXIT OFFER

ACTIVITY	DATE	DAY
EXIT OFFER OPENING DATE (10.00 A.M.)	May 04, 2026	Monday
EXIT OFFER CLOSING DATE (5.00 P.M.)	May 15, 2026	Friday
LAST DATE FOR PAYMENT OF CONSIDERATION FOR PAYMENT OF SHARES ACQUIRED UNDER EXIT OFFER	May 22, 2026	Friday

A letter inviting the Public Shareholders to tender their Shares ("Offer Letter") containing the necessary forms and detailed instructions for submitting the application form has been dispatched to the Public Shareholders on April 22, 2026. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such shareholders of the Company may download the same from Merchant Banker's website i.e., <http://www.intelligentgroup.in>. The Public Shareholders who holds Equity Shares of the Company and wish to tender their Equity Shares) pursuant to the Exit Offer will be required to submit the duly completed Form of Acceptance cum acknowledgement, along with necessary documents as may be specified in the Offer Letter, to the IMMLP at designated Y-MCA building, 2nd Floor, 5, Jawahar Nehru Road, Kolkata - 700 007, Tel. No: +91-33-4065-6289, Email: info@intelligentgroup.in, ama@intelligentgroup.in, either by hand delivery or by registered post/speed post/ courier, at their own risk, between 10.00 A.M. & 5.00 P.M. on any working day during the Offer Period, so as to reach on or before exit offer closing date i.e. May 15, 2026.

PROCEDURE FOR SETTLEMENT
The payment for Equity Shares tendered under the Exit Offer will be made within fifteen (15) working days from the date of closure of Exit Offer by way of pay order/demand draft/RTGS/NEFT or any other permitted electronic mode of transfer. In case of joint holders, payments will be made in the name of the first holder.

PROCEDURE FOR ACCORDING CONSENT TO REMAIN AS SHAREHOLDERS
Public Shareholders who do not want to tender their Equity Shares during the Exit Offer Period and the Exit Window Period and are willing to remain as shareholder of the Company may submit an undertaking annexed to the Offer Letter.

DECLARATION BY ACQUIRER
The Acquirer undertakes that He shall acquire the Shares of the Public Shareholders, who have not offered their Shares under Exit Offer Period, up to a period of one year from the completion of offer at the same price determined by the Independent Valuer ("Exit Price"). The procedure for tendering the Shares during Exit Window Period shall be same except the payment of consideration, which shall be released on a monthly basis i.e., within maximum 15 working days of the end of the relevant calendar month in which Shares have been validly tendered by the Public Shareholders ("Monthly Payment Cycle"). The Acquirer shall certify to the satisfaction of NSE that appropriate procedure has been followed for providing exit to the public shareholders of the Company. Subsequently, the NSE upon satisfaction shall remove the Company from DB.

This Reminder PA is issued for and on behalf of the Promoter

Place: Kolkata
Date: May 12, 2026
Acquirer - Member of Promoter and Promoter group of Crown Leasing and Finance Limited

(Anirban Nath)

Place: Kolkata



Leading Through Innovation

एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड

(पूर्व नाम एकमे सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं.152, सेक्टर 44, गुरुग्राम 122002, हरियाणा, भारत

ई-मेल: cs.acme@acme.in • टूरभाष: +91-124-7117000 • वेबसाइट: www.acmesolar.in

पोस्टल बैलेट सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है की, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार, जिसे साथ धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग) दफ्तिय और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के नियम 4.4 के अनुसार; इस्वीओएफ अफ कंपनी सेक्टर 44 ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठकों पर सेक्टर 44 टैरिफ ईटीडी ("एसएफ-2") के अनुसार (जिसे संयम-संयम पर लागू होने वाले कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनर्विनियम शामिल हैं), और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमएसई") द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया आयोजित करने के लिए जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट नोटिस, साथ में स्पष्टीकरण विवरण के साथ, मंगलवार, 12 मई 2026 को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है, जिनके ईमेल पते सूक्रवार, 08 मई 2026 ("कट-ऑफ तिथि") तक उनके संबंधित विभाजित प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं, ताकि कंपनी के सदस्यों की स्वीकृत केलव रिमांड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") के माध्यम से निम्नलिखित मामलों पर प्रावधान की जा सके:

क्र. सं.	प्रस्तावों का विवरण	प्रस्तावों का प्रकार
1	"एकमे कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2024" में संशोधन	विशेष प्रस्ताव
2	एकमे कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना 2024 के तहत सहयोग कंपनी (कंपनियां) और/या होल्डिंग कंपनी (कंपनियां) के कर्मचारियों को विकल्प प्रदान करना	विशेष प्रस्ताव

यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट के संबंधित सेक्शन पर भी उपलब्ध है: www.acmesolar.in और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनेटक") की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध करा दिया गया है; साथ ही, सेबी एफसी लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") को क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी सूचित किया जाएगा।

सदस्यों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य अपने वोट देने के अधिकांश का इस्तेमाल केवल रिमांड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") के जरिए ही कर सकते हैं। वोट देने के अधिकांश की गणना कट-ऑफ तारीख को कंपनी में उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटों के अनुसार ही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख को कंपनी का सेक्टर 44 नहीं है, वह इस पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही मारना।

कंपनी ने अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा देने के उद्देश्य से केफिनेटक की सेवाएँ ली हैं। ई-वोटिंग की सुविधा सदस्यों के लिए निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	वोट देने की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि	सूक्रवार, 08 मई 2026
2	ई-वोटिंग अवधि की शुरुआत	गुरुवार, 14 मई 2026 को सुबह 09:00 बजे (IST)
3	ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति	सूक्रवार, 12 जून 2026 को रात 05:00 बजे (IST)

ई-वोटिंग की सुविधा केफिनेटक द्वारा सूक्रवार, 12 जून 2026 को रात 5:00 बजे (IST) के तुरंत बाद बंद कर दि जाएगी, और उसके बाद यह उपलब्ध नहीं होगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री दीपक कुक्रेडर (एनसीएस नंबर 4140 और सीओपी नंबर 8265), तथा उनके अनुपस्थिति होने के स्थिति में, सुशी मोहन कोहली (एनसीएस नंबर 5480, सीओपी नंबर 4936), पार्दनेर मेसर्स हीएमके एंजिलिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्टर 44 को केवल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमांड ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जानकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

वोटों की जांच पूरी होने के बाद, जानकारी अपनी रिपोर्ट पर्यवेदन को, या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा। पोस्टल बैलेट के नवीजे रिमांड ई-वोटिंग से संबंधित, 15 जून, 2026 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। नतीजे कंपनी की वेबसाइट www.acmesolar.in पर और केफिनेटक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर दिखाए जाएंगे, और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई और एनएसई को भी सूचित किए जाएंगे।

किसी भी सवाल/शिकायतों के मामले में, सदस्य <https://evoting.kfintech.com/> के 'ड्रॉनलोट' अनुभाग में मौजूद अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं, या केफिनेटक से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं, या सेलिंगियन बिल्डिंग, टावर-3, प्लॉट नंबर 31 और 32, फार्मासियल इंडियन, नानकरगुआ, सेरिंगियन, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत - 500 032 पर संपर्क कर सकते हैं, या श्री गणेश चंद्र पाल, सहयोग उपाध्यक्ष - आर आईएस, केफिनेटक को inward.ris@kfintech.com और evoting@kfintech.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस में दिए गए सभी नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विशेष रूप से रिमांड ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने संबंधी निर्देशों को।

एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड

(पूर्व नाम एकमे सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड)

के निदेशक मंडल की ओर से और उनकी तरफ से

एसडी/-
राजेश सोही

कंपनी सचिव और अनुपाल अधिकारी

सदस्यता संख्या: एक 3043

स्थान: गुवागम
दिनांक: 12 मई 2026

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS UNDER REGULATION 18 (12) IN REGARD TO SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

JAUSS POLYMERS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L74899HR1987PLC066065

Registered Office: Plot No. 51, Roza ka meo Industrial area, Gurgaon, Sohna, Haryana- 122103, India

Contact Number: 0120-7195236-39 | Email Address: response@jausspolymers.com

Website: www.jausspolymers.com

Open Offer for Acquisition of Up To 12,02,650 (Twelve Lakhs Two Thousand Six Hundred Fifty Only) Fully Paid-Up Equity Shares of Face Value of ₹10.00/- Each (Rupees Ten) ("The Equity Shares"), Representing 26% of The Equity and Voting Share Capital (As Defined Below) of Jauss Polymers Limited ("Target Company" or "TC"), at an Offer Price of ₹ 16.05/- Per Share (Rupees Sixteen point Zero Five paise Only) ("Offer Price"), Payable In Cash, Pursuant to and in Compliance with the Securities And Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and Subsequent Amendments thereto "SEBI (SAST) Regulations" ("Open Offer" or "Offer").

This Post Offer Advertisement is being issued by Gretex Corporate Services Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of M/s. Noize Brands and Lifestyle Limited ("Acquirer") along with Mr. Aditya Chopra Person Acting in Concern ("PAC") in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was made on Tuesday, February 10, 2026, in the Financial Express (English Daily) (All Editions), Jansatta Hindi (All Editions), Navshakti (Marathi Daily) (Mumbai Edition), Gurgaon Mail (Gurgaon) ("Newspapers").

Sr. No	Particulars	Details
1	Name of the Target Company	Jauss Polymers Limited
2	Name of the Acquirer and the PACs	M/s. Noize Brands and Lifestyle Limited ("Acquirer") along with Mr. Aditya Chopra person acting in concern ("PAC")
3	Name of the Manager to the Offer	Gretex Corporate Services Limited
4	Name of the Registrar to the Offer	M/s Beetal Financial and Computer Services Private Limited
5	Offer Details:	
	a. Date of Opening of the Offer:	Wednesday, April 22, 2026
	b. Date of Closure of the Offer:	Wednesday, May 06, 2026
6	Date of Payment of Consideration	Wednesday, May 20, 2026*

*No shares were tendered during the Open Offer Period.

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actual
7.1	Offer Price	₹ 16.05/- per share per Fully paid up equity share	₹ 16.05/- per share per Fully paid up equity share
7.2	Aggregate number of shares tendered	12,02,650	Nil
7.3	Aggregate number of shares accepted	12,02,650	Nil
7.4	Size of the offer (Numbers of shares multiplied by offer price per share)	1,93,02,533	Nil
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements/Public Announcement (No. & %)	NIL	NIL
7.6	Shares Acquired by way of Agreements (SPA)		
	• Number	20,07,754 Equity Shares	20,07,754 Equity Shares
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	-43.41%	-43.41%
7.7	Shares Acquired by way of Open offer		
	• Number	12,02,650	NIL
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	26%	
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Statement		
	• Number of Shares acquired	NIL	NIL
	• Price of the shares acquired		
	• % of the shares acquired		
7.9	Post offer Shareholding of Acquirer and PAC		
	• Number	32,10,404	40,71,54
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	69.41%	23.57%
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public		
	• Number	26,17,821	14,15,171
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	55.99%	26,17,821
	• % of Fully Diluted Equity Share Capital	30.59%	56.59%

8. The Offer along with its PAC severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.

9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited ("BSE") and on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the registered office of the Target Company.

10. The capitalized terms used but not defined in this advertisement shall have the meanings assigned to such terms in the Public Announcement and/or Detailed Public Statement and/or Letter of Offer.

11. This Post offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS has appeared.

Issued by Manager to the Offer on behalf of the Acquirer and PAC

GRETEX
GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED
Address: A-401, Floor 4th, Plot FF-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Dadar (W), Delsile Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400013

Tel No.: +91 2269308500 | Email: info@gretexgroup.com | Website: www.gretexcorporato.com
Contact Person: Mr. Arvind Hartalka | SEBI Registration No: INM000012177
CIN: L74999MH2008PLC288128

Place: Gurgaon
Date: May 12, 2026